



प्रभागी

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

No. 533]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2004/अग्रहायण 12, 1926

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2004/AGRAHAYANA 12, 1926

प्रभागी

रा० वि० एक०

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2004

4/2004-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 784(अ).—सा.का.नि. 679 (अ), दिनांक 15-10-2004 के तहत फसल वर्ष 2004-05 के लिए लाइसेंस जारी करने की सामान्य शर्तों से संबंधित मंत्रालय की अधिसूचना को संशोधित करते हुए, निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

- जिन कृषकों ने 55 डिग्री से कम गाढ़ेपन की अफीम सौंपी है, उन कृषकों को विवर्जित करने संबंधी उप-पैरा 3 (क) (iv) हटाया जाता है।
- न्यूनतम अर्हक उपज की पूर्व चेतावनी संबंधी उप-पैरा 6(i) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“अगले फसल वर्ष 2005-2006 में अफीम लाइसेंस का प्राप्ति होने के लिए फसल वर्ष 2004-05 के दौरान मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 56 कि.ग्रा./हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 49 कि.ग्रा./हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज (एम क्यू वाई) अवश्य सौंपी जानी चाहिए।”

[सं. 4/2004/फा.सं. 616/1/2004-स्वापक नियंत्रण-I]

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd December, 2004

4/2004-Narcotics Control-I

G.S.R. 784(E).—In modification of Ministry's Notification vide G.S.R. 679 (E) dated 15-10-2004 regarding general conditions for issuance of licence for the crop year 2004-05, the following modifications are made :—

- Sub-para 3 (a)(iv) relating to debarring of cultivators who have tendered opium of consistency lower than 55 degree is deleted.
- Sub-para 6 (i) relating to forewarning of MQY is substituted as follows :—

“A Minimum Qualifying Yield (MQY) of 56 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 49 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2004-05 to become eligible for opium licence in the next crop year 2005-2006.”

[No. 4/2004/F.No. 616/1/2004-Narcotics Control-I]

S.K. SINGH, Under Secy.